

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

#### जिला-राजगढ़

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	झोन क्रमांक	झोन का नाम	झोनल अधिकारी का नाम/ पद एवं विभाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सारंगपुर	1	कालापील	श्री शारिक हुसैन अंसारी, सहा. संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय, सारंगपुर.
		2	कड़लावद	डॉ. जी. एस. कुल्मी, वि. व. विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़.
		3	संडावता	श्री एम. के. सराफ, सहायक यंत्री जल संसाधन, सारंगपुर.
		4	लीमाचौहान	श्री आर. ए. जाफरी, सहा. यंत्री, जल संसाधन, राजगढ़.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5	भैंसवामाता	श्री पी. एस. कदम, श्रम पदाधिकारी, राजगढ़
		6	चिडलावनिया	श्री राधेश्याम व्यास, योजना अधिकारी, कार्या., जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़.
		7	सुल्तानिया	श्री के. के. द्विवेदी, सहकारी संस्था राजगढ़
		8	पाडल्यामाता	श्री एस. एस. वर्मा, सहा. यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़., मुख्यालय, सारंगपुर.
		9	गुलावता	श्री आर. डी. चौधरी, कार्यपालन यंत्री लो. नि. विभाग, राजगढ़,
		10	मऊ	डॉ. राम सिंह यादव, पशु चिकित्सक उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं राजगढ़ मुख्यालय, सारंगपुर.
		11	उदनखेड़ी	श्री दिलीप बिगोनियां, सहा. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़.
		12	पटाडिया धाकड़	डॉ. अरूण मोर्य, प्रभारी समन्वयक दल इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ कार्या. राजगढ़.
		13	पाडल्या आंजना	श्री भगवान सिंह बिसोरिया, जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़.
		14	टीकोद	श्री भीम सिंह चौहान, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, राजगढ़.
		15	पड़ाना	श्री एस. एन. राज., संग्रह अभ्यक्ष, जिला संग्रहालय, राजगढ़.
		16	काछीखेड़ी	श्री जी. एल. अग्रवाल, कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्त्योदय समिति, राजगढ़.
		17	गोपालपुरा	श्री राम अवतार मीणा, संभागीय लेखाधिकारी, लो. नि. वि. राजगढ़.
2	नरसिंहगढ़	1	चौमा	श्री आर. के. उपाध्याय, सहा. यंत्री जनपद पंचायत, नरसिंहगढ़.
		2	सूकली	श्री एम. एल. शर्मा, सहा. यंत्री, ग्रा. या. सेवा, राजगढ़ (मुख्यालय नरसिंहगढ़)
		3	पाडल्यादान	श्री एम. के. नाहरिया, सहा. यंत्री, ग्रा. या. सेवा, राजगढ़ (मुख्यालय नरसिंहगढ़)
		4	नाहली	डॉ. बी. एन. गवली, पशु चिकित्सक, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, राजगढ़.
		5	तुर्कीपुरा	डॉ. डी. आर. अहिरवार, पशु चिकित्सा उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, राजगढ़ (मुख्यालय नरसिंहगढ़).
		6	धनखेड़ी	श्री के. एल. सुरजन, उप वन मण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी सेवा, राजगढ़ (मुख्यालय नरसिंहगढ़).
		7	झाड़ला	श्री आर. एस. पवार, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, नरसिंहगढ़.
		8	ढाबला	श्री धर्मेन्द्र भण्डारी, सहा. यंत्री जल संसाधन, नरसिंहगढ़
		9	कौडियागोड़	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सहा. यंत्री, जल संसाधन नरसिंहगढ़.
		10	नून्याहेड़ी	श्री एच. पी. मीणा, संभागीय लेखाधिकारी, जल संसाधन नरसिंहगढ़.
		11	पलासी	श्री अजय कुमार वर्मा, सहा. यंत्री जल संसाधन, नरसिंहगढ़.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12	पांजरा	श्री एस. के. पाटील, सहा. यंत्री, लो. नि. वि. राजगढ़ (मुख्यालय नरसिंहगढ़)
		13	रामगढ़	श्री आर. के. केथल, सहा. खनिज अधिकारी, राजगढ़.
		14	बैरासिया	श्री एफ. शर्मा, सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी, राजगढ़
		15	बडोदिया तालाब	श्री प्रकाश तिखे, कार्यपालन यंत्री, जिला पंचायत राजगढ़.
		16	सौका जागीर	श्री सुनील कुमार, मुकाती कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. रा. रा. ब्यावरा.
		17	मोयलीकला	श्री आर. के. गायकवाड़, सहा. यंत्री, लो. स्वा. या. उप मेके. राजगढ़.
		18	कुरावर	श्री राजेन्द्र सिंह बास्केल, वाणिज्यकर अधिकारी, राजगढ़

### द्वितीय चरण

1.	ब्यावरा	1	चाता	श्री आर. के. यादव, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्यावरा.
		2	पीपलबे	श्री बी. के. श्रीवास्तव सहा. यंत्री, जिला पंचायत, राजगढ़.
		3	पीपलहेला	डॉ. एम. पी. शर्मा, पशु चिकित्सक, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं राजगढ़ (मुख्यालय सुठालिया)
		4	परसूलिया	डॉ. के. पी. सक्सेना, पशु चिकित्सक, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं राजगढ़ (मुख्यालय सुठालिया)
		5	भीलवाड़िया	श्री समयसिंह मीना, सभागीय लेखाधिकारी, लो. नि. वि. रा. रा. ब्यावरा.
		6	बाईहेडा	श्री एम. एस. कटारा, सहा. यंत्री, लो. नि. वि. रा. रा. ब्यावरा.
		7	गिन्दौरमीना	श्री बी. एल. देहवार, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, ब्यावरा
		8	आमल्याहाट	श्री एस. एस. रघुवंशी, सहा. यंत्री, जल संसाधन, नरसिंहगढ़ (मुख्यालय ब्यावरा).
		9	आगर	श्री एन. के. मानोरिया, सहा. यंत्री, जल संसाधन, नरसिंहगढ़ (मुख्यालय ब्यावरा)
		10	मलावर	श्री के. के. मेहरा शाखा प्रबंधक, एम. पी. एग्री, ब्यावरा
		11	बरखेड़ा	श्री एम. के. आचार्य, महाप्रबंधक, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्यावरा.
		12	गिन्दौरहाट	श्री आर. के. बाजपेयी, लेखाधिकारी, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना ब्यावरा.
		13	नापानेरा	श्री जे. पी. शर्मा, सहायक प्रबंधक, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्यावरा.
		14	कानेड	श्री एच. एस. शर्मा, सहायक प्रबंधक, प्रधान मंत्री, ग्रामीण सड़क योजना, ब्यावरा.
		15	टोडी	श्री यू. सी. त्रिपाठी, सहायक प्रबंधक प्रधान मंत्री, ग्रामीण सड़क योजना, ब्यावरा.
		16	गागाहोनी	श्री के. पी. एस. चौहान, सहायक प्रबंधक प्रधान मंत्री, ग्रामीण सड़क योजना, ब्यावरा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		17	सेमलापार	श्री एस. के. पाटिल, सहायक यंत्री, पी. डब्ल्यू. डी., राजगढ़ मुख्यालय (नरसिंहगढ़)
2	राजगढ़	1	पीपलौदी	डॉ. पी. के. दीक्षित, पशु चिकित्सक, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, राजगढ़.
		2	भियापुरा	श्री बी. एन. सिंह. सहा. प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, राजगढ़
		3	अमरगढ़	श्री जी. एस. रघुवंशी, सहा. पंजी, सह. संस्था, राजगढ़
		4	कीलखेड़ा	श्री एच. पी. जाटव, अंकेक्षण अधिकारी, पंजी. सह. संस्था राजगढ़
		5	खरना	श्रीमती बंदना फिलिप्स, उप संचालक, रेशम विभाग, राजगढ़.
		6	कालीपीठ	डॉ. एम. एस. अली, पशु चिकित्सा, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, राजगढ़.
		7	झंझाड़पुर	श्री यशवंत कुमार धानोरा आबकारी अधिकारी, राजगढ़,
		8	बगा	श्री डी. के. सक्सेना, सहा. प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, राजगढ़.
		9	करैडी	श्री सी. एल. नागले, महा प्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, राजगढ़.
		10	पाटनखुर्द	श्रीमती मीना श्रीवास्तव, उप संचालक, जिला पंचायत, राजगढ़.
		11	बामलाबे	डॉ. पी. के. सक्सेना, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवा, राजगढ़.
		12	चाटूखेड़ा	श्री के. के. नागर, बी. आर. सी. डाईट, राजगढ़.
		13	बखेड़	श्रीमती शैल श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, राजगढ़.
		14	लिम्बोदा	डॉ. अरविन्द भार्गव परियोजना प्रबंधक, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम, राजगढ़.
		15	बाँसखेड़ा	श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, जिला पंजीयक राजगढ़.
		16	सुस्तानी	श्री अरुण कुमार भद्रावले, सहा. परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.
		17	करनवास	श्री डी. डी. मोर्य, सहायक संचालक, मत्स्य उद्योग राजगढ़.

### तृतीय चरण

1.	खिलचीपुर	1	भोजपुर	श्री टी. सी. पांचाल, कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यांत्रिकीय विभाग, राजगढ़.
		2	खाजला	श्री सी. एस. गुप्ता, संभागीय लेखा अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, राजगढ़.
		3	दण्ड	श्री एस. के. खरे, सहा. यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ (मु. खिलचीपुर).
		4	पपडेल	डॉ. के. एम. खान, पशु चिकित्सक, उप संचालक, प. चि. सेवा, राजगढ़, मुख्यालय, खिलचीपुर.
		5	सडियाकुआ	श्री सी. एस. हाडा, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि खिलचीपुर.
		6	बधेला	श्री प्रकाश तिखे, कार्यपालन यंत्री, जिला पंचायत, राजगढ़.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7	ढाबलीकला	श्री राजेन्द्र सिंह, जिला विपणन अधिकारी, विकासखण्ड, राजगढ़.
		8	दिलावरी	श्री आर. के. गायकवाड, सहायक यंत्री, जल संसाधन, विभाग राजगढ़.
		9	धामनिया जोगी	श्री आर. एम. मिश्रा, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, राजगढ़.
		10	फतेहपुर	श्री आर. डी. चौधरी, कार्यपालन यंत्री लो. नि.वि. राजगढ़.
		11	जेतपुराकला	श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़.
		12	पीपल्याकला	डॉ. ए. के. बाड्या कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़.
		13	व्यावराकला	श्री प्रभाकर श्रीवास्तव, जिला परियोजना समन्वयक एवं शिक्षा अभियान राजगढ़.
		14	भाटखेड़ा	श्री ए. के. शर्मा रीडर, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजगढ़.
		15	खजुरी गोकूल	श्री डी. डी. मोर्य, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग राजगढ़.
		16	कुलीखेड़ा	डॉ. अरविन्द भार्गव, परियोजना प्रबंधक, इंदिरागांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम, राजगढ़.
2	जीरापुर	1	घोघटपुर	श्री एम. के. बाधम, सहायक यंत्री, ग्रा. या. सेवा राजगढ़.
		2	पीपल्याकुल्मी	श्री एम. एस. यादव सहा. यंत्री, जल संसाधन, राजगढ़
		3	रामगढ़	श्री अजय कुमार संभागीय लेखा अधिकारी, जल संसाधन, राजगढ़.
		4	बाढ़गांव	श्री के. पी. आठया उप वन मण्डलाधिकारी, सा. या. राजगढ़.
		5	भानपुरा	श्री बी. एस. जामरा, उप संचालक, कृषि राजगढ़.
		6	गोरियाखेड़ा	श्री दिलीप बिगोनिया, सहा. कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. राजगढ़.
		7	गागोरनी	श्री आर. ए. जाफरी, सहायक यंत्री, जल संसाधन, राजगढ़.
		8	खुमानपुरा	श्री एस. एन. राज, संग्राह्यक्ष, जिला संग्राहालय, राजगढ़
		9	आम्लाबे	डॉ. अरूण मोर्य, प्रभारी समन्वयक दल इन्द्रा गांधी, गरीबी हटाओ, राजगढ़.
		10	लिम्बोदा	श्री के. के. द्विवेदी, उप पंजीयक, सहकारी संस्था, राजगढ़.
		11	राजाहेड़ी	श्री सुनील कुमार मुकाती, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. रारा. व्यावरा.
		12	धतरावदा	श्री यशवन्त कुमार धानोरा, आबकारी अधिकारी, राजगढ़.
		13	भण्डावद	श्री बी. के. एस. तोमर, सहा. संचालक, उद्यान राजगढ़.
		14	काशीखेड़ी	श्री अरूण कुमार भद्रावाले, सहायक परियोजना अधिकारी, पंचायत राजगढ़.
		15	झाडमउ	श्री राजेन्द्र सिंह बास्केल वाणिज्य कर अधिकारी, राजगढ़.
		16	मोहन	श्री जी. एल. अग्रवाल, कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्त्योदय समिति, राजगढ़.